



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]
No. 657]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2012/पौष 3, 1934
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2012/PAUSA 3, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2012

सं. 49/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 923(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सा.का.नि.सं. 467(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामतः-

कथित अधिसूचना में, प्रविष्टि 26 के बाद, निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः -

“निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत जीवन बीमा कारबार की 26क सेवाएं प्रदान की गई -

- (क) जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई); अथवा
- (ख) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)”

[फा. सं. 354/190/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

नोट:— मूल अधिसूचना जिसे सा.का.नि.सं.467(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत अधिसूचना सं.25/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन सा.का.नि.सं. 620(अ), दिनांक 7 अगस्त, 2012 के तहत अधिसूचना सं.44/2012-सेवा कर, दिनांक 7 अगस्त, 2012 के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2012

No. 49/2012-Service Tax

G.S.R. 923(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012, namely:-

In the said notification, after entry 26, the following shall be inserted namely:-

“26A. Services of life insurance business provided under following schemes -

- (a) Janashree Bima Yojana (JBY); or
- (b) Aam Aadmi Bima Yojana (AABY);”.

[F. No. 354/190/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note.— *The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 25/2012 - Service Tax, dated 20th June, 2012, vide number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012 and was last amended by notification No. 44/2012-Service Tax, dated the 7th August, 2012 vide number G.S.R. 620 (E), dated the 7th August, 2012*

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2012

सं. 58/2012-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 924(अ).— जबकि फिथालिक अनिहाईड्राइड (एतदपश्चात् विषयागत माल के रूप में उल्लिखित) के आयात के मामले में जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतदपश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान (चीनी ताईपाई) और इजराइल (एतदपश्चात् विषयागत देश के रूप में उल्लिखित) में उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित हैं, के मामले में प्राधिकृत प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/1/2011-डीजीएडी, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

- (i) विषयागत देशों से विषयागत माल भारतीय बाजार में सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किए गए थे इस प्रकार ये माल विषयागत माल के प्रतिपादन के परिणामस्वरूप थे;
- (ii) घरेलू उद्योग को ऐसे माल से अत्यधिक क्षति पहुंची थी;
- (iii) अत्यधिक क्षति विषयागत देशों से विषयागत माल के पाटित आयात के कारण हुई थी;

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने विषयागत देशों से मूलतः अथवा निर्यातित विषयागत माल तथा भारत में आयातित माल पर निश्चित प्रतिपादन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियामावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयागत माल, जिसका विवरण नीचे की सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम 4 में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि

सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट मुद्रा कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट राशि के समतुल्य प्रतिपादन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ शीर्ष	मदों का विवरण	मूल देश / क्षेत्र	निर्यात का मूल देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	मेसर्स अकुंग पेट्रोकेमिकल्स कं. लि.	मेसर्स हुमेड कॉर्पोरेशन	0	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
2	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	कोरिया जनवादी गणराज्य	विषयगत देश को छोड़कर अन्य देश	कोई	कोई	91.12	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
3	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	विषयगत देश को छोड़कर अन्य देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	91.12	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
4	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	ताइवान	ताइवान	ननि या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	ननि या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	63.33	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
5	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	ताइवान	विषयगत देश को छोड़कर अन्य देश	कोई	कोई	150.88	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
6	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	विषयगत देश को छोड़कर अन्य कोई देश	ताइवान	कोई	कोई	150.88	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर

7	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	इजराइल	इजराइल	गडीव पेट्रोकेमिक ल्स इण्ड. लि.	गडीव पेट्रोकेमिक ल्स इण्ड. लि.	17.99	मी.ट	अमेरिकी डॉलर
8	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	विषयगत देश को छोड़कर अन्य देश	इजराइल	कोई	कोई	139.76	मी.ट	अमेरिकी डॉलर
9	2917 35 00	फिथालिक अनिहाईड्रा इड	इजराइल	विषयगत देश को छोड़कर अन्य देश	कोई	कोई	139.76	मी.ट	अमेरिकी डॉलर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक (जब तक उसे हटाया, संशोधित अथवा पहले अधिक्रमित नहीं किया जाता) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और विनिमय दर के निर्धारण की सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रविष्ट बिल में दी गई है।

[फा. सं. 354/206/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

47706/12-2

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2012

No. 58/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 924(E).—WHEREAS in the matter of Phthalic Anhydride (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Korea RP, Taiwan (Chinese Taipei) and Israel (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, vide notification No. 14/1/2011-DGAD, dated the 28th September, 2012, had come to the conclusion that –

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below its associated normal value, except in the cases wherein the dumping margin has been found to be negative;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods;
- (iii) the injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject countries.

AND WHEREAS, the designated authority in its aforesaid findings, has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), and produced by the producer as specified in the corresponding entry in column (6), when exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), by the exporter as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Korea RP	Korea RP	M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd	M/s Humade Corporation	NIL	MT	US Dollar
2.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Korea RP	Any other than subject countries	Any	Any	91.12	MT	US Dollar
3.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Any other than subject countries	Korea RP	Any	Any	91.12	MT	US Dollar
4.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Taiwan	Taiwan	Nan Ya Plastics Corporation	Nan Ya Plastics Corporation	63.33	MT	US Dollar
5.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Taiwan	Any other than subject countries	Any	Any	150.88	MT	US Dollar
6.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Any other than subject countries	Taiwan	Any	Any	150.88	MT	US Dollar
7.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Israel	Israel	Gadiv Petrochemicals Industries Ltd.	Gadiv Petrochemicals Industries Ltd.	17.99	MT	US Dollar
8.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Any other than subject countries	Israel	Any	Any	139.76	MT	US Dollar
9.	2917 35 00	Phthalic Anhydride	Israel	Any other than subject countries	Any	Any	139.76	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Gazette of India and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/206/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.